



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 360]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 5, 1979/भाद्र 14, 1901

No. 360]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 5, 1979/BHADRA 14, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 1979

अधिसूचना

का० भा० 514(घ).—भारतीय रेल अधिनियम, 1890(1890 का 9) की धारा 47 की उप-धारा (1) के खंड (च) और (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा रेल (भाण्डागारण और घाट भाड़ा) नियम, 1958 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात्:—

1. (1) ये नियम रेल (भाण्डागारण और घाट भाड़ा) (संशोधन) नियम, 1979 कहलायेंगे।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. रेल (भाण्डागारण और घाट भाड़ा) नियम, 1958 के:

(1) नियम 1 क की तालिका में—

(1) "माल यातायात" से संबंधित मव (i) के सामने कालम 4 के अंतर्गत ग्रुप 1 स्टेशनों और ग्रुप 2, स्टेशनों के नीचे निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:—

ग्रुप 1

पैसे

38

45

75

ग्रुप 2

पैसे

19

25

38

587 GI/79

(827)

(2) "सामान और पार्सल यातायात" से संबंधित मव के सामने कालम 4 के अंतर्गत "35 पैसे" अंक और छन्द को "70 पैसे" अंक और शब्द द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(2) नियम 6 की तालिका में:—

(1) मव (1) के सामने कालम 3 की प्रविष्टि में "वनस्पति तेल टंकी माल डिब्बों के मिवाय" शब्दों के पश्चात् और "के लिए 60 पैसे" शब्द और अंक के पहले निम्नलिखित शब्द और अंक अन्तर्विष्ट किये जायेंगे, अर्थात्:—

निम्नलिखित दरें उन स्टेशनों पर लागू होंगी जो रेल प्रशासन द्वारा इन विलम्ब शुल्क दरों के लिए अधिसूचित की जायें:—

पहले दिन के लिए	38 पैसे
दूसरे दिन के लिए	45 पैसे
तीसरे दिन और उसके बाद के लिए	60 पैसे

(2) मव (2) के सामने कालम 3 के अंतर्गत प्रविष्टि में "वनस्पति तेल टंकी माल डिब्बों के मिवाय" शब्दों के पश्चात् और "के लिए 60 पैसे" शब्द और अंक से पहले निम्नलिखित शब्द और अंक अन्तर्विष्ट किये जायेंगे, अर्थात्:—

पहले दिन के लिए	38 पैसे
दूसरे दिन के लिए	45 पैसे
तीसरे दिन और उसके बाद के लिए	60 पैसे

(3) मद (4) के सामने कॉलम 3 के अंतर्गत, "50 रुपये" शब्द और अंक के स्थान पर "75 रुपये" शब्द और अंक प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

(4) मद (5) के सामने कॉलम 3 के अंतर्गत "50 रुपये" शब्द और अंक के स्थान पर "75 रुपये" शब्द और अंक प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

(2) नियम 15 में जहाँ कहीं भी "साठ पैसे" शब्द पायें उनके स्थान पर "एक रुपया और पचास पैसे" शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[सं० टी०सी 1/201/79/9]

के० बालचन्द्रन, सचिव, रेलवे बोर्ड एवं
भारत सरकार के पर्यटन संयुक्त सचिव

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

New Delhi the 5th September, 1979

NOTIFICATION

S.O. 514(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (f) and (g) of Sub-section (1) of Section 47 of the Indian Railways Act, 1890, (9 of 1890). The Central Government hereby makes the following rules further to amend the Railways (Warehousing and Wharfage) Rules, 1958, namely :—

1. (1) These rules may be called the Railways (Warehousing and Wharfage) (Amendment) Rules, 1979.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Railways (Warehousing and Wharfage) Rules 1958 :

(1) In Rule 1A in the table,—

(i) against item (i) relating to goods traffic under column 4, under Group I stations and Group II stations, the following entries shall be substituted, namely :

Group I	Group II
Paise	Paise
38	19
45	25
75	38"

(ii) against item relating to "Luggage and Parcels traffic" under column 4 for the figure and word "35 Paise", the figure and word "70 Paise" shall be substituted.

(2) In Rule 6 in the table :—

(i) Against item (i) under column 3 in the entry, after the words "except vegetable oil tank wagons" and before the figure and word "60 Paise for" the following words and figures shall be inserted, namely :

The following rates will be applicable to those stations which are notified by the Railway Administration for these demurrage rates;

For the first day	38 Paise
For the second day	45 Paise
For the third day	
and thereafter.	60 Paise

(ii) against item (ii) under column 3, in the entry after the words "except vegetable oil tank wagons" and before the figure and words "60 Paise for" the following words and figures shall be inserted namely :

For the first day	38 Paise
For the second day	45 Paise
For the third day and	
thereafter	60 Paise

(iii) against item (iv) under column 3, for the word and figure "Rupees 50/-" the word and figure "Rupees 75/-" shall be substituted.

(iv) against item (v) under column 3, for the word and figure "Rupees 50/-", the word and figure "Rupees 75/-" shall be substituted.

(3) In Rule 15, for the words "Sixty Paise" wherever they occur, the words "Rupee one and fifty paise" shall be substituted.

[No. TCI/201/71/9]

M. BALACHANDRAN,
Secretary, Railway Board
and Ex-Officio Joint Secretary to the
Government of India.